

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 26.06.2022

दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये व महिला सम्बन्धी अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 410/2022 धारा 323/504/376/313 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिव शंकर सोनी पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद सोनी मूलता ग्राम बनकटवा पो0 बगहा थाना बगहा जनपद पश्चिमी चंपारण (बेतिया) बिहार हाल मुकाम महादेव झारखण्डी भैरोपुर चौराहा वीर बहादुर पुरम थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 33 वर्ष को आज दिनांक 26.06.2022 समय 10.20 बजे रेलवे स्टेशन वाराणसी से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है

अपराध/पूछताछ विवरण-

वादिनी /पीडिता के पति के साथ काम करने वाले शिव शंकर सोनी से जान पहचान होने के बाद वादिनी अपने पति को छोड़ कर शिवशंकर सोनी के साथ रहने लगी। इन दोनों से उसको एक बच्चा भी हुआ परन्तु उसके बाद भी अभियुक्त वादिनी द्वारा शादी करने को कहने पर आनाकानी करता रहा। बाद में शिवशंकर सोनी किसी दूसरी लड़की से सगाई कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 410/2022 धारा 323/504/376/313 भादवि पंजीकृत किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वादिनी का पति जय सिंह मेरे साथ IRCTC गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर काम करता था। मोबाइल के माध्यम से हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। हमदोनों के बीच नजदिकिया बढ़ती गयी। इसी बीच वादिनी का पति जयसिंह विदेश चला गया हम लोगो के बीच मिलना जुलना शुरू हो गया। बाद में हम लोग साथ में ही पति पत्नी की तरह रहने लगे। हम लोगो का एक लड़का भी है।

अभियुक्त का नाम पता -

शिव शंकर सोनी पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद सोनी निवासी मूलता ग्राम बनकटवा पो0 बगहा थाना बगहा जनपद पश्चिमी चंपारण (बेतिया) बिहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 410/22 धारा 323/504/376/313 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय -

रेलवे स्टेशन वाराणसी / दिनांक- 26.06.2022 समय- 10.20 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0अखिलेश कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0वैभव श्रीवास्तव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 जयप्रकाश यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर